

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 379]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 22, शक 1945

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

क्र. 226-पीएसजी-आरएमपी-2023.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री तथा श्री जगदीश देवड़ा एवं श्री राजेन्द्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है और बुधवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 को पूर्वान्ह 11.30 बजे उन्हें क्रमशः मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई गई.

डी. पी. आहूजा, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.